

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(अक्टूबर 2017)

बारिश से पहले रिंग रोड बनाने का टारगेट 10 दिन में शुरू होगा काम प्रोजेक्ट मैनेजर

अगले बरसात से पहले शहर के रिंग रोड का निर्माण पूरा करने को कहा गया है सडक विकास निगम को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा है कि टारगेट टफ है लेकिन समय पर निर्माण पूरा कर लेगे सडक की उचाई बढ़ने की आपत्ति पर उन्होने कहा कि यह कोई बडी बात नहीं है जब भी सडक नए सिरे से बनती है तो उचाई बढ़ती ही है सेटर में सडक जरूरी उंची होगी लेकिन किनारे में डाउन रहेगी सडक विकास निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश वर्मा रविवार को अम्बिकापुर पहुंचे थे उन्होने पीएचई बिजली विभाग और निगम के अधिकारियों के साथ निर्माण की तैयारियों की समीक्षा की पाइप लाइन शिफ्टिंग के लिए पीएचई को करीब पांच करोड रूपए दिए गए हैं लेकिन अब तक ठेका नहीं हुआ जबकि बिजली के खंभों की शिफ्टिंग के लिए विद्युत विभाग ने अभी प्रस्ताव नहीं दिया है दोनों विभागों को जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा गया है निर्माण के साथ दोनों काम चलेगे

निगम को नवरात्रि बीतने के बाद सडक मरम्मत करने की आई याद

नवरात्रि के बाद नगर निगम को महामाया मंदिर की सडक की मरम्मत करने का ध्यान आया आनन फानन में अंतिम दिन सडक पर हुए गडढों को भरने के लिए निगम द्वारा सीमेंट डस्ट डालकर खानापूर्ति की गई लेकिन नवरात्रि शुरू होने के पूर्व मंदिर की सडक की मरम्मत करने का ध्यान निगम को नहीं आया शारदेय नवरात्रि शुरू होने के पूर्व नगर निगम को महामाया

मंदिर की सडक मरम्मतीकरण का ध्यान नही आया लेकिन नवरात्रि बीतने के बाद अतिम दिन सडक मरम्मत करने का ध्यान निगम को आया

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)